

सोमवार 23 मार्च, 2020

जॉबसीकर (JobSeeker) भुगतान (पूर्ववर्ती न्यूस्टार्ट) और कोरोनावायरस संपूरक (Coronavirus Supplement)

22 मार्च को संघीय सरकार ने न्यूस्टार्ट (जिसे अब जॉबसीकर भुगतान कहा जाता है) में परिवर्तनों और 27 अप्रैल से उपलब्ध होने वाले \$550 प्रति पखवाड़े के कोरोनावायरस संपूरक की घोषणा की। एंटाइटेल्मेंटों के बारे में नीचे संक्षेप में दिया गया है।

• आज से लेकर 13 अप्रैल के बीच

- जो लोग बेरोजगार हैं या जिनकी आय सीमा से कम हो गई है, वे सामान्य जॉबसीकर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं - यह पुराना न्यूस्टार्ट है और संतानहीन एकल व्यक्तियों के लिए \$565.70 प्रति पखवाड़े के पूर्व स्तर पर (आय और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर) बना हुआ है। उन्हें सरकार की ओर से \$750 का पहला एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा जो 31 मार्च से (लोगों के शामिल होने के साथ-साथ 13 अप्रैल तक) उपलब्ध होगा।
- यदि लागू हो, तो लोगों को इस बात का प्रमाण देने की आवश्यकता होगी कि उनकी नौकरी छूट गई है [कार्य पृथक्करण प्रमाण-पत्र (Employment Separation Certificate)]।
- सामान्य प्रतीक्षा अवधि हटा दी गई है (जो एक सप्ताह है), लेकिन लिक्विड एसेट्स प्रतीक्षा अवधि (Liquid Assets Waiting Period) अभी भी लागू होगी (जिसकी गणना \$5,999 की बचत धनराशि के लिए 1 सप्ताह से लेकर \$11,500 या इससे अधिक की बचत धनराशि के लिए अधिकतम 13 सप्ताहों तक की जाती है)। इसलिए जिन लोगों के पास काफी बचत धनराशि है, उन्हें भुगतानों के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।
- सभी परिसंपत्ति परीक्षण अभी भी लागू होंगे।
- संशोधित पारस्परिक दायित्व (प्रति माह 4 कार्य)

• 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच

- उपरोक्त सभी शर्तें लागू होंगी, लेकिन आपको सबसे पहले दिया जाने वाला \$750 का भुगतान नहीं मिलेगा।

• 27 अप्रैल के बाद

- सभी पात्र प्राप्तकर्ताओं को जॉबसीकर भुगतान के अतिरिक्त \$550 प्रति पखवाड़े के कोरोनावायरस संपूरक का भुगतान किया जाना शुरू हो जाएगा। (रोग भत्ता, युवा भत्ता, मातृत्व-पैतृत्व भुगतान, सहजीवी भत्ता, विशेष लाभ और कृषि गृह भत्ता प्राप्त करने वाले लोगों को भी 6 महीनों तक यह भुगतान मिलेगा)।
- 6 महीनों के लिए परिसंपत्ति परीक्षण, लिक्विड एसेट प्रतीक्षा अवधि और नौकरी छूटने के प्रमाण की आवश्यकता हटा दी गई है। इनमें से किसी भी प्रतीक्षा अवधि में आने वाले सभी व्यक्तियों को यह प्रणाली सुलभ होगी।
- एकल व्यापारियों और स्वरोजगार व्यावसायिकों के लिए 6 महीनों की विशेष योग्यता शुरू होगी।
- यदि आप कोरोनावायरस संपूरक प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, तो आप \$750 के दूसरे एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे/होंगी।
- संशोधित पारस्परिक दायित्व (प्रतिमाह 4 कार्य)।

अस्वीकरण

यह केवल सामान्य मार्गदर्शन है और 23/03/2020 को दोपहर 13:00 बजे लिखने के समय तक यह सही था। और अधिक विवरण के लिए सरकारी स्रोत देखें।